

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक्र० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/186

दिनांक - 27/07/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल शुरू करेगी निःशुल्क आवासीय एथलेटिक्स अकादमी

29 एवं 30 जुलाई को किया जाएगा खिलाड़ियों (बालक वर्ग) का चयन

जयंत एरिया के विजय स्टेडियम में आयोजित की जाएगी चयन प्रक्रिया

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु आवासीय एथलेटिक्स अकादमी शुरू करने का फैसला लिया है। सिंगरौली परिक्षेत्र में अपनी तरह की इस पहली अहम कोशिश के तहत एनसीएल अपने जयंत एरिया स्थित विजय स्टेडियम में बालकों (Boys) के लिए यह अकादमी शुरू करने जा रही है, जिसके लिए 29 एवं 30 जुलाई को सुबह 8.30 से विजय स्टेडियम जयंत में ही प्रशिक्षु खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 30 प्रशिक्षु खिलाड़ियों का चयन होगा। आखिरी रूप से चयनित प्रशिक्षु खिलाड़ियों को निःशुल्क आवासीय एथलेटिक्स अकादमी में विशेषज्ञों द्वारा एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वैसे बालक, 01 अगस्त 2017 तक, जिनकी न्यूनतम उम्र 12 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 14 वर्ष है, वे इस चयन प्रक्रिया में बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी खिलाड़ियों को एनसीएल की वेबसाइट www.nclcil.in पर उपलब्ध पंजीकरण पत्र चयन प्रक्रिया के दिन साथ भरकर लाना होगा। साथ ही, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड की कॉपी तथा नगर निगम या अन्य अधिकृत संस्था द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी लाना होगा। एक उच्च स्तरीय समिति की देखरेख में यह चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(Aminiratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

और इसी समिति की संस्तुति पर आवासीय अकादमी में रखे जाने हेतु प्रशिक्षु खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

अहम बात है कि इस आवासीय एथलेटिक्स अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के अंतर्गत दैनिक खान-पान, विद्यालयीन शिक्षा, खेल परिधान तथा प्राथमिक उपचार का वहन एनसीएल प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।

फोटो कैप्शन - 1. विजय स्टेडियम, जयंत एरिया, एनसीएल की तस्वीर।

2. विजय स्टेडियम, जयंत एरिया, एनसीएल की तस्वीर।

जनसंपर्क अधिकारी